

कर्मचारी चयन आयोग

दिल्ली पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप-निरीक्षक और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक उप-निरीक्षकों की भर्ती परीक्षा, 2017 - दस्तावेज़ सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टिंग करने हेतु चिकित्सा परीक्षा के परिणाम की घोषणा।

1. कर्मचारी चयन आयोग ने दिनांक 01.07.2017 से 07.07.2017 तक दिल्ली पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप-निरीक्षक और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक उप-निरीक्षकों की भर्ती हेतु कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन किया था। आयोग द्वारा दिनांक 06.09.2017 को प्रश्नपत्र -I का परिणाम घोषित किया गया था। दिनांक 15.12.2017 को उक्त परीक्षा के लिए प्रश्न-पत्र II का आयोजन उन अभ्यर्थियों के लिए किया था जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षा/ शारीरिक मापदंड परीक्षा में अर्हता प्राप्त की थी। चिकित्सा परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को शॉर्ट-लिस्टिंग करने के लिए प्रश्नपत्र- II का परिणाम दिनांक 29.01.2018 को घोषित किया गया था।

2. केन्द्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों (सीएपीएफ) द्वारा प्रदान किए गए विस्तृत चिकित्सा परीक्षा/पुनः चिकित्सा परीक्षा के डेटा के आधार पर, विस्तृत चिकित्सा परीक्षा/पुनः चिकित्सा परीक्षा का परिणाम निम्नानुसार है: -

(i) पुरुष अभ्यर्थी:

चिकित्सा प्रस्थिति	वि.चि.प	पु.चि.प	योग
योग्य	3427	699	4126
अयोग्य	1585	167	--
निरस्त	02	--	--
अनुपस्थित	693	71	--
योग	5707*	--	--

*01 अभ्यर्थी का अभ्यर्थिता अर्थात श्री राज कुमार (अनुक्रमांक 2405000698) जिन्हें चिकित्सा परीक्षा में 'योग्य' घोषित किया गया था, बाद में शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्हताप्राप्त नहीं करने के कारण रद्द कर दिया गया था।

(ii) महिला अभ्यर्थी:

चिकित्सा प्रस्थिति	वि.चि.प	पु.चि.प	योग
योग्य	692	141	833
अयोग्य	223	09	--
अनुपस्थित	37	08	--
योग	952	--	--

3. उपरोक्त पैरा -2 के तहत दिए गए विवरणों के अनुसार पुनः चिकित्सा परीक्षा / विस्तृत चिकित्सा परीक्षा में कुल 4959 अभ्यर्थियों (4126 पुरुष और 833 महिला) को 'योग्य' घोषित किया गया था। इन अभ्यर्थियों के श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है:

(i) पुरुष अभ्यर्थी:

अजा	अजजा	अपिव	अना	योग	भू.पू.सैनिक
562	267	1856	144 1	412 6	300

(ii) महिला अभ्यर्थी:

अजा	अजजा	अपिव	अना	योग
78	49	412	294	833

टिप्पणी -1: अपिव श्रेणी (श्रेणी कोड -6) और 'केवल दिल्ली के लिए अपिव' (श्रेणी कोड -4) वाले अभ्यर्थियों को उपरोक्त पैरा -3 में उल्लिखित सूची में अपिव श्रेणी के अंतर्गत दर्शाया गया है।

टिप्पणी-2: अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उनके द्वारा उल्लिखित श्रेणियों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।

टिप्पणी -3: भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके संबंधित ऊर्ध्वाधर श्रेणी (अर्थात अजा, अजजा, अपिव और अना) में भी दिखाया गया है।

4. सभी 4959 अभ्यर्थी (4126 पुरुष और 833 महिला) जिन्होंने चिकित्सा परीक्षा में अर्हता प्राप्त की है, उन्हें संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। दस्तावेज़ सत्यापन दिनांक 07.10.2018 से शुरू होगा और दस्तावेज़ सत्यापन का विस्तृत कार्यक्रम संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइटों पर अपलोड किया जाएगा।

5. यह परिणाम कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट: <http://ssc.nic.in> पर उपलब्ध है:

अवर सचिव (गो. 1/2)
26.09.2018